

संख्या— /XXVIII(5)/2024(E-40463)

प्रेषक,

डॉ० आर० राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5 देहरादून: दिनांक अगस्त, 2024
विषय :- राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ में 100 एम०बी०बी०एस० प्रशिक्षु क्षमता
के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5783/चि०शि०/०३ (मेडिकल)/
128/2014-22/Vol-2 दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश
हुआ है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ हेतु एन०एम०सी० के मानकानुसार 100
एम०बी०बी०एस० प्रशिक्षु क्षमता के संचालन हेतु निम्न विवरणानुसार कुल 816 पदों का
सृजन दिनांक 29.02.2025 तक, बशर्ते की उक्त पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के
समाप्त न कर दिये जाय, सृजित किये जाने की मा० राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते
हैं :-

(अ) नर्सिंग संवर्ग -

क्रस	पदनाम	वेनमान/लेवल	सृजित पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत
1	नर्सिंग सुपरिटेन्डेन्ट	78800-209200 (लेवल-12)	1	पदोन्नति
2	डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेन्डेन्ट	67700-206700 (लेवल-11)	2	पदोन्नति
3	असिस्टेन्ट नर्सिंग सुपरिटेन्डेन्ट	56100-177500 (लेवल-10)	10	पदोन्नति
4	सिस्टर नर्सिंग	47600-151100 (लेवल-8)	20	पदोन्नति
5	स्टाफ नर्स	44900-142400 (लेवल-7)	240	सीधी भर्ती
	योग (अ)		273	

(ब) पैरामैडिकल एण्ड एन्सिलियरी स्टाफ -

क्रस	पदनाम	वेनमान/लेवल	सृजित पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत
1	एनाटॉमी			
	टैक्नीशियन (लेब)	-	2	आउटसोर्स
	डी०एच० अटेन्डेंट	-	4	आउटसोर्स

	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
2	फिजियोलॉजी			
	टैक्नीशियन (लैब)	—	2	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
3	बायोकेमिस्ट्री			
	टैक्नीशियन (लैब)	—	8	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
4	पैथोलॉजी			
	टैक्नीशियन (लैब)	—	14	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
5	माइक्रोबायोलॉजी			
	टैक्नीशियन (लैब)	—	14	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
6	फार्माकालॉजी			
	टैक्नीशियन असिस्टेंट / टैक्नीशियन	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
7	फॉरेन्सिक मेडिसिन			
	टैक्नीशियन (लैब)	—	2	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
8	कम्युनिटी मेडिसिन			
	मेडिकल सोशल वर्कर	—	1	आउटसोर्स
	टैक्नीशियन (लैब)	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
9	आर०एच०टी०सी० (रूरल ट्रेनिंग हेल्थ सेन्टर)			
	मेडिकल सोशल वर्कर	—	2	आउटसोर्स
	पब्लिक हेल्थ नर्स	—	2	आउटसोर्स
	हेल्थ इंस्पेक्टर / हेल्थ असिस्टेंट (मेल)	—	1	आउटसोर्स
	हेल्थ एजुकेटर	—	1	आउटसोर्स

	टैक्नीशियन (लेब)	—	1	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
10	यू०एच०टी०सी० (अरबन ट्रेनिंग हैल्थ सेन्टर)			
	मेडिकल सोशल वर्कर्स	—	1	आउटसोर्स
	पब्लिक हैल्थ नर्स	—	2	आउटसोर्स
	हैल्थ इंस्पेक्टर	—	2	आउटसोर्स
	हैल्थ एजुकेटर	—	1	आउटसोर्स
	टैक्नीशियन (लेब)	—	1	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
11	जनरल मेडिसिन			
	ई०सी०जी० टैक्नीशियन	—	3	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
12	टी०बी० एण्ड चेस्ट			
	टी०बी० एण्ड चेस्ट डिजीज हैल्थ विजिटर	—	1	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
13	डर्मेटोलॉजी			
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
14	साइकेट्री			
	साइकियट्रिक सोशल वर्कर	—	2	आउटसोर्स
	ई.ई.जी. टैक्नीशियन	—	1	आउटसोर्स
15	पीडियाट्रिक्स			
	चाइल्ड साइक्लॉजिस्ट	—	1	आउटसोर्स
	सोशल वर्कर	—	1	आउटसोर्स
	हैल्थ एजुकेटर	—	1	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
16	जनरल सर्जरी			
	टैक्नीशियन (ओ०टी०)	—	3	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
17	आर्थोपेडिक्स			
	टैक्नीशियन (ओ०टी०)	—	2	आउटसोर्स

	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
18	ई0एन0टी0			
	टैक्नीशियन (ओ0टी0)	—	2	आउटसोर्स
	ऑडियोमेट्री टैक्नीशियन	—	1	आउटसोर्स
	स्पीच थेरेपिस्ट	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
19	ऑपथलमॉलॉजी			
	टैक्नीशियन (ओ0टी0)	—	2	आउटसोर्स
	रिफ्रेक्शनिस्ट	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
20	ऑब्स एण्ड गायनी			
	सोशल वर्कर	—	2	आउटसोर्स
	टैक्नीशियन (ओ0टी0)	—	3	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
21	रेडियोडायग्नोसिस			
	रेडियोग्राफिक्स टैक्नीशियन	—	8	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
22	रेडियोथेरेपी (ऑप्शनल)			
	रेडियोथेरेपी टैक्नीशियन (प्रति ट्रीटमेन्ट यूनिट के लिए) दो यूनिट हेतु	—	2	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
23	एनेथेसियोलॉजी			
	टैक्नीशियन (ओ0टी0)	—	2	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
24	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन (ऑप्शनल)			
	फिजियोथेरेपिस्ट	—	2	आउटसोर्स
	ऑकुपेशनल थेरेपिस्ट	—	2	आउटसोर्स
	क्लीनिकल साइकलॉजिस्ट	—	1	आउटसोर्स
	मेडिकल सोशल वर्कर	—	1	आउटसोर्स

	पब्लिक हेल्थ नर्स / रिहैब्लिटेसन नर्स	—	2	आउटसोर्स
	वेकेशनल काउन्सलर	—	1	आउटसोर्स
	मल्टी रिहैब्लिटेसन वर्कर / एम0आर0डब्लू0 / टैक्नीशियन	—	2	आउटसोर्स
	स्पीच थेरेपिस्ट	—	1	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थेटिक टैक्नीशियन	—	2	आउटसोर्स
25	डेन्टिस्ट्री			
	डेन्टल टैक्नीशियन	—	3	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
26	सेन्ट्रल रिकार्ड सेक्शन			
	मेडिकल रिकार्ड आफिसर	—	1	आउटसोर्स
	स्टेटिस्टिसियन	—	1	आउटसोर्स
	कोडिंग क्लर्क	—	2	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	2	आउटसोर्स
27	एनिमल हाउस			
	वेटरिनरी ऑफिसर	—	1	आउटसोर्स
	टैक्नीशियन फार ऐनिमल आपरेशन रूम	—	1	आउटसोर्स
28	सेन्ट्रल लाइब्रेरी			
	लाइब्रेरियन with a degree in library science	—	1	आउटसोर्स
	डिप्टी लाइब्रेरियन	—	1	आउटसोर्स
	असिस्टेंट लाइब्रेरियन	—	1	आउटसोर्स
	लाइब्रेरी असिस्टेंट (डॉक्यूमेंटलिस्ट / कॅटालूगर)	—	3	आउटसोर्स
29	सेन्ट्रल फोटोग्राफी कम ऑडियोविजुअल यूनिट			
	ऑडियोविजुअल टैक्नीशियन	—	1	आउटसोर्स
	फोटोग्राफर	—	1	आउटसोर्स
	आर्टिस्ट / माडलर (one Each)	—	1	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
30	मेडिकल एजुकेशन यूनिट			
	टैक्नीशियन इन ऑडियोविजुअल एण्ड आर्टिस्ट	—	1	आउटसोर्स

	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	—	1	आउटसोर्स
	कम्प्यूटर ऑपरेटर	—	2	आउटसोर्स
31	सेन्ट्रल स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज विभाग			
	स्टाफ नर्स	—	1	आउटसोर्स
	टैक्नीशियन (ओ0टी0)	—	2	आउटसोर्स
32	लाउण्ड्री			
	सुपरवाइजर	—	1	आउटसोर्स
33	ब्लड बैंक			
	टैक्नीशियन (लैब)	—	8	आउटसोर्स
	स्टोर कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क	—	1	आउटसोर्स
34	सेन्ट्रल कैजुअल्टी सर्विसेज			
	रिशोप्सनिस्ट कम क्लर्क	—	3	आउटसोर्स
	नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल स्टाफ	—	6	आउटसोर्स
35	सेन्ट्रल वर्कशाप			
	सुपरिन्टेडेंट / असिस्टेंट इंजीनियर (इलैक्ट्रानिक्स / बायोमैडिकल)	—	1	आउटसोर्स
	जूनियर इंजीनियर (सिविल, इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रानिक्स / बायोमैडिकल, रेफ्रिजरेशन / मैकेनिकल)	—	2	आउटसोर्स
	जूनियर टैक्नीशियन (इलैक्ट्रीकल / प्लम्बिंग)	—	2	आउटसोर्स
36	डाइट्री सेवायें (चिकित्सालय हेतु)			
	डायटीशियन	—	1	आउटसोर्स
37	व्यायामशाला			
	पी0टी0आई0 (01 पुरुष एवं 01 महिला)	—	2	आउटसोर्स
38	डायलिसिस टैक्नीशियन			
	डायलिसिस टैक्नीशियन	—	3	आउटसोर्स
39	प्राचार्य कार्यालय			
	लेखाकार	—	1	आउटसोर्स
	सहायक लेखाकार	—	1	आउटसोर्स
	वैयक्तिक सहायक	29200-92300 (लेवल-5)	शा0सं0-345 दि0 04 मई, 2020 द्वारा पूर्व 1 में सृजित	सीधी भर्ती
	कनिष्ठ सहायक	21700-69100 (लेवल-3)	शा0सं0-345 दि0 04 मई, 2020 द्वारा पूर्व 1 में सृजित	सीधी भर्ती

वैयक्तिक सहायक	29200-92300 (लेवल-3)	8	आउटसोर्स
योग (ब)		222	

(स) आउटसोर्स -

1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर		12	आउटसोर्स
2	वैन ड्राइवर		4	आउटसोर्स
3	कारपेन्टर		2	आउटसोर्स
4	वार्ड ब्याय / वार्ड आया / दफ्तरी / चपरासी / पिऑन		200	आउटसोर्स
5	स्ट्रेचर बियरर			आउटसोर्स
6	एनिमल अटेन्डेन्ट			आउटसोर्स
7	घोबी / वॉशरमैन / वूमेन			आउटसोर्स
8	पैकर			आउटसोर्स
9	स्वीपर		50	आउटसोर्स
10	सिक््योरिटी गार्ड		40	आउटसोर्स
11	इलैक्ट्रीशियन		4	आउटसोर्स
12	विधि अधिकारी / विधि सलाहकार / लीगल एडवाइजर		1	आउटसोर्स
13	प्लम्बर		2	आउटसोर्स
14	बायोमैडिकल टैक्निशियन		4	आउटसोर्स
15	दफ्तरी / परिचारक		शा0सं0 345 दि0 04 मई 2020 द्वारा पूर्व में 02 सृजित	आउटसोर्स
	योग (स)		321	
	महायोग (उपरोक्त - अ+ब+स)		816	

2- मेडिकल कालेज हेतु सृजित पदों के सापेक्ष तैनातियां वर्षवार एन.एम.सी. के मानकानुसार एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर की जायेंगी। नियमित/आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने वाले गैर चिकित्सकीय पदों पर भर्ती किए जाने से पूर्व वास्तविक आवश्यकता एवं कार्यभार (ओपीडी/आईपीडी में मरीजों की संख्या के आधार पर) के अनुसार शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी।

3- उक्त पदों पर नियुक्ति संगत सेवा नियमावली एवं आरक्षण से सम्बन्धित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार की जायेंगी। विभागीय आवश्यकतानुसार पदों की निरन्तरता ससमय संगत शासनादेशों के अनुसार प्राप्त की जायेगी।

4— विभागीय आवश्यकतानुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति के पदों के सापेक्ष संविदा के आधार पर तैनात किये जाने वाले संकाय सदस्यों को समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित मानदेय/परिलब्धियां देय होंगी।

5— आउटसोर्स से भरे जाने वाले गैर चिकित्सकीय पदों की भर्ती/शैक्षिक अर्हता/मानदेय आदि के सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-813 दिनांक 04 जनवरी, 2021 में उल्लिखित शर्तों/प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6— आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों का नियोजन किए जाने के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-111, दिनांक 27.04.2018 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-922 दिनांक 11 अगस्त 2023 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-04-मेडिकल कॉलेज-15-राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ की स्थापना के संगत मद के नामे डाला जायेगा।

8— यह आदेश ई-पत्रावली में प्राप्त वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-229348/XXVII(7)/2024 दिनांक 30 जुलाई, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० आर० राजेश कुमार)

सचिव।

संख्या— /XXVIII(5)/2024(E-40463) एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल।
- 3— निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 4— निजी सचिव, मा० चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5— जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 6— प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़।
- 7— निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8— वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋचा)

अनु सचिव।

